

S-361

B.Sc. (Part-III) Examination, 2020

CHEMISTRY

Second Paper

(Organic Chemistry)

Time allowed : Three hours

Maximum Marks : 45

SECTION – A

(Marks $1.5 \times 10 = 15$)

Answer all **ten** questions (Answer limit **50** words). Each question carries **1.5** marks.

खण्ड – अ

(अंक $1.5 \times 10 = 15$)

समस्त दस प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर सीमा **50** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **1.5** अंक का है।

SECTION – B

(Marks $3 \times 5 = 15$)

Answer all **five** questions. Each question has internal choice (Answer limit **200** words). Each question carries **3** marks.

खण्ड – ब

(अंक $3 \times 5 = 15$)

समस्त पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न में विकल्प का चयन करें (उत्तर सीमा **200** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **3** अंक का है।

SECTION – C

(Marks $5 \times 3 = 15$)

Answer any **three** questions out of **five**. (Answer limit **500** words). Each question carries **5** marks.

खण्ड – स

(अंक $5 \times 3 = 15$)

पाँच में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए (उत्तर सीमा **500** शब्द)। प्रत्येक प्रश्न **5** अंक का है।

SECTION – A

खण्ड – अ

1. (i) How many absorption signal would you expect in ethyl-methyl ether ?

एथिल-मेथिल ईथर में कितने अवशोषण सिग्नल प्राप्त होंगे ?

- (ii) Which nuclei are NMR active ?

निम्न में से कौन से NMR सक्रिय नाभिक हैं ?

^{10}B , ^{12}C , ^{14}N , ^{16}O , ^{31}P , ^1H

- (iii) How will you obtain pyrrole from furan ?
फ्यूरन से पिरोल कैसे प्राप्त की जा सकती है ?
- (iv) What do you mean by iodine value ?
आयोडीन मान से आप क्या समझते हैं ?
- (v) Explain why enolates are more stable than enols.
समझाइये कि इनोल्स की तुलना में इनोलेट्स अधिक स्थाई क्यों हैं ।
- (vi) What is ninhydrin test ?
निनहाइड्रीन टेस्ट क्या है ?
- (vii) Write the Haworth projection formula of glucose and fructose.
ग्लूकोस व फ्रक्टोस के हावर्थ प्रक्षेपण सूत्र लिखिये ।
- (viii) What is molish reagent ?
मोलिश अभिकर्मक क्या होता है ?
- (ix) What is difference between colour and dye ?
रंग व रंजक में क्या अन्तर है ?
- (x) What are the advantages of Ziegler Nata catalyst ?
जीग्लर नाटा उत्प्रेरक के लाभ बताइये ।

SECTION – B

खण्ड – ब

2. How NMR distinguish between axial and equatorial protons ?
NMR किस प्रकार अक्षीय तथा भूमध्यीय प्रोटॉन के मध्य विभेद दर्शाता है ।

OR / अथवा


Two NMR spectra were obtained for ethanol (i) in pure form (ii) in the aqueous solution.

What would be difference between the two ?

एथेनॉल के 2 NMR स्पेक्ट्रा लिए गये –

- (i) शुद्ध अवस्था में
(ii) जलीय विलयन में
दोनों NMR स्पेक्ट्रा में क्या अन्तर होगा ?

3. Complete and balance the following equations :
निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण व सन्तुलित कीजिये :



OR / अथवा

Explain the following with reference to oil and fats :
तेल एवं वसा के सन्दर्भ में निम्नलिखित पदों को समझाइये :

- (i) Rancidity
विकृतगंधिता
- (ii) Hydrogenolysis
हाइड्रोजनी अपघटन
- (iii) R.M. Value
आर.एम.मान

4. Describe Kurt Meyer's method for finding the Keto-enol ratio in acetoacetic ester.
एसीटोऐसीटिक एस्टर में कीटो व ईनोल रूपों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कुर्ट मेर विधि का वर्णन कीजिए। <http://www.mgsuonline.com>

OR / अथवा

Explain the reactions of carboxylic group of amino acids.
एमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक समूह की क्रियाओं को समझाइये।

5. What do you mean by mutarotation ? Explain its mechanism.
म्युटारोटेशन से आप क्या समझते हैं ? इसकी यांत्रिकी समझाइए।

OR / अथवा

How are the following conversions affected ?
निम्न में परिवर्तन कैसे करोगे ?

- (i) Aldopentose into aldohexose
एल्डोपेन्टोस को एल्डोहैक्सोस में।
- (ii) Fructose into fructosazone
फ्रक्टोस को फ्रक्टोसाजोन में

P.T.O.

6. Write uses and synthesis of nylon - 6 and nylon - 66.
नाइलॉन - 6 व नाइलॉन - 66 के संश्लेषण एवं उपयोग लिखिये।

OR / अथवा

What are azo dyes ? How will you prepare methyl orange and methyl red ?
एजो रंजक क्या हैं ? मेथिल ऑरेंज व मेथिल रेड को किस प्रकार बनाओगे ?

SECTION - C

खण्ड - स

7. What do you mean by NMR spectroscopy ? What are shielding and deshielding effects ? Describe these in the reference of chemical shift.
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या समझते हैं ? परिरक्षण व विपरिरक्षण प्रभाव किसे कहते हैं ? रासायनिक विस्थापन के सन्दर्भ में इसकी व्याख्या कीजिये।
8. Discuss the structure of pyridine. Give its two methods of synthesis. How does pyridine react with the following :
(a) conc. HNO_3 + conc. H_2SO_4
(b) Na + $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(c) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Li}$
पिरिडीन की संरचना की विवेचना कीजिये। इसके संश्लेषण की दो विधियाँ दीजिए। पिरिडीन की निम्न से क्या क्रिया होती है –
(a) सान्द्र HNO_3 + सान्द्र H_2SO_4
(b) Na + $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(c) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Li}$
9. Write the structure and names of various structural components of DNA. How does DNA differ from RNA ? Discuss the role of these molecules in living organisms.
DNA के विभिन्न संरचनात्मक घटकों के नाम व संरचना लिखिए। DNA व RNA एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं ? जीवित प्राणियों में इन अणुओं की महत्ता का वर्णन कीजिये।
10. Discuss the constitution of glucose. How will you convert glucose into fructose ?
ग्लूकोस की संरचना का वर्णन कीजिये। आप ग्लूकोस को फ्रूक्टोस में कैसे परिवर्तित करोगे।
11. What are resins ? Write the structure, synthesis and uses of various formaldehyde resins.
रेजिन किन्हें कहते हैं ? विभिन्न फॉर्मेलिडहाइड रेजिनों की संरचना, संश्लेषण तथा उपयोग लिखिये।